



सत्यमेव जयते

केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)

O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX,

केंद्रीय कर भवन,
सातवीं मंजिल, पोलिटेकनिक के पास,
आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015

7th Floor, GST Building,
Near Polytechnic,
Ambavadi, Ahmedabad-380015



☎ : 079-26305065

टेलीफैक्स : 079 - 26305136

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

क फाइल संख्या : File No : V2(90)22/Ahd-South/2018-19
Stay Appl.No. /2017-18

503470
5038

ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal Nos. AHM-EXCUS-001-APP-020-2018-19
दिनांक Date : 29-06-2018 जारी करने की तारीख Date of Issue

10/7/2018

श्री उमा शंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by Shri. Uma Shanker, Commissioner (Appeals)

ग Arising out of Order-in-Original No. MP/01/REB/2018 दिनांक: 02.04.2018 issued by Assistant
Commissioner, Div-V, Central Tax, Ahmedabad-South

घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address of the Appellant / Respondent
Pace Solutions
Ahmedabad

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथार्थिथि नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को
अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as
the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन

Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक
के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
: 110001 को की जानी चाहिए।


(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit
Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New
Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first
proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे
भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के
दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to
another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a
warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of
on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country
or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।



(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिन भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में विल्ट अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनोंक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालन की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.


सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलों के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैटल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016

(a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं टंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के संमक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty alone is in dispute."



ORDER-IN-APPEAL

This order arises out of an appeal filed by M/s. Pace Solutions, 5, Vaibhav Bungalows, Near Visat Petrol Pump, Sabarmati, Ahmedabad-380005. (in short 'appellant') against Order-In-Original NMP/01/Reb/2018 dated 02.04.2018 (in short 'impugned letter') issued by the Assistant Commissioner, Central GST Ex, Division-V, Ahmedabad South (in short 'adjudicating authority').

2. Briefly stated that the appellant filed rebate claim of Rs.2,00,000/- along with all relevant documents under Rule 18 of the Cenvat Excise Rules, 2002 on 18.10.2017 with Office of the Dy/Asstt. Commr, CGST & C.Ex, Div.VII, Ahmedabad North, who in turn transferred it to the Office of the Asstt. Commr, CGST & CEx, Division-V, Ahmedabad-South stating not pertaining to their jurisdiction. On enquiry with said Division-V by the appellant, it was informed that said claim/documents are not received by them. Hence, the appellant again filed said rebate claim on 03.01.2018 with the adjudicating authority who in turn rejected the subject rebate claim vide impugned order on the ground of non-filing of original documents.


3. Aggrieved with the impugned order, the appellant filed the present appeal wherein, *inter alia*, submitted that :

- The adjudicating authority has rejected the rebate claim without going into facts of the case simply discussing the fundamental requirements for filing rebate claim under Rule 18ibid.
- The case law viz. West Coast Pigment Corpn[2013(290)ELT-135(GOI)] relied upon by the adjudicating authority is applicable where original ARE-1 is not provided. The fact of submission of original documents with ARE-1 is not controverted vide para 8.2 of the impugned order. The original documents are lying with either Division-VII or V and rely upon case law viz. UM Cables Ltd. Vs.UOI reported at 2013(293) ELT-641(Bom.)

4. Personal hearing in the matter was held on 26.06.2018. Shri V.H. Hakani, Advocate, appeared on behalf of the appellant and stated that the claim was filed with Division-VII of Ahmedabad North with original papers which was forwarded to Division-V of Ahmedabad South.

5. I have carefully gone through the appeal memorandums, submission made at the time of personal hearing and evidences available on records. I find that the main issue to be decided is whether the impugned order is just, legal and proper or otherwise. Accordingly, I proceed to decide the case on merits.


6. Prima facie, I find that the appellant had filed the subject rebate claim along with original documents in the Office of the Dy/Asstt. Commr, CGST & CEx, Division-



VII, Ahmedabad South on 18.10.2017 which was transferred to the Office of the Asstt. Commr, CGST & C.Ex, Division-V, Ahmedabad South being not pertaining to their jurisdiction. The appellant has produced photo copy of the letter having filed the claim on 18.10.2017 in the said Division-VII. This fact is not in dispute. When the appellant inquired, it was reported by the Division-V that original documents are not received from the Division-VII. In this regard, I find that it is duty of the proper authority to inform the appellant about transfer of its rebate claim to Division-V. I find that there is nothing on record as to when i.e. date on which the said claim was transferred to Division-V. Simultaneously, it is also the officer receiving the claim is duty bound to ensure receipt of the enclosures alongwith covering letter of the authority transferring it and inform non-receipt of enclosures, if any, immediately being revenue matter for the govt. ex-chequer. I find that nothing is done to ascertain about said missing ARE-1 and other relevant documents by the adjudicating authority. Hence, the adjudicating authority is hereby directed to enquire about said missing ARE-1 and other documents.

6.1 Further, as regards eligibility of said rebate claim, I find that the adjudicating authority has failed to ascertain duty paid character of the goods, its export and receipt of export remittance which are vital elements for sanction or rejection of any rebate claim in terms of Rule 18ibid and notification issued thereunder. Other procedural lapse, as discussed in the impugned order, can be condoned provided these three vital elements are satisfied as held by the higher appellate forum in series of case laws. Accordingly, I remand the case to the adjudicating authority to decide a fresh within 30 days of communication of this order after following the principle of natural justice.

7. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.



उमाशंकर

(उमा शंकर)
केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील्स)
Dt. 19.06.2018

Attested:

B.A. Patel
08/07/18
(B.A. Patel)
Supdt.(Appeals)
CGST, Ahmedabad.
BY SPEED POST TO:
M/s Pace Solutions,
5, Vaibhav Bungalows,
Near Visat Petrol Pump,
Sabarmati, Ahmedabad-380005.

Copy to:-

- (1) The Chief Commissioner, CGST, Ahmedabad Zone.
- (2) The Principal Commissioner, CGST & C.Ex, Ahmedabad South (RRA Sec.).
- (3) The Asstt. Commissioner, CGST & C.Ex , Division-V, Ahmedabad South.
- (4) The Asstt. Commissioner(System), CGST & C.Ex, HQ, Ahmedabad South.
(for uploading OIA on website)

~~(5) Hard file~~

(6) P.A. file.

